

मोतिहारी/बेतिया/गोपालगंज

सुरेश हत्याकांड का 24 घंटे में पटाक्षेप

हथियार के साथ शूटर सहित दो गिरफ्तार

हत्या में पांच लोगों की सलिमा सामने आयी

सुपारी देनेवाला व्यक्ति बंजरिया थाने के फुलवार गांव का निवासी निकला

मोतिहारी/सं। जिला परिषद सदस्य सह केन युनियन के सचिव सुरेश यादव हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में पटाक्षेप कर दिया है। मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस की ओर से एसआईटी का गठन किया गया था, नतीजतन पुलिस की टीम में शामिल अधिकारी एवं जवानों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यो के आधार पर चर्चित इस हत्याकांड का न केवल खुलासा किया है, बल्कि मामले में सलिस एक-एक लोगों की पहचान कर ली है। इस संबंध में एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को अपने कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान बताया कि गिरफ्तार बदमाशों में सुगौली थाना क्षेत्र का हरिशंकर पासवान एवं शहर के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का सुदामा सहनी शामिल है। इस मामले में पांच लोगों की सलिप्तता सामने आइ है, जो जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिसिया पूछताछ में पता चला है कि जिप सदस्य सुरेश यादव की हत्या

दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

मोतिहारी/सं। द्वितीय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 2 वर्ष बाद ही मारपीट कर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुगौली थाना के बेलटोला निवासी भागीरथ सहनी को हुई। मामले में मोतिहारी मुफासिल थाना के लखौरा निवासी शिवराम सहनी ने दहेज के लिए उसकी पुत्री अनीता देवी की हत्या कर देने की प्रार्थमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसकी पुत्री अनीता की शादी 9 दिसंबर 2020 को भागीरथ से हुई थी शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर अनीता मायके आई थी। जहां पंचायती के बाद पचास हजार रुपए दहेज में दिए जाने के बाद वह ससुराल गई थी। 30 मार्च 2022 को अनीता अपने मायके फोनकर बताई थी कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देने की योजना बना रहे हैं। दूसरे दिन उसके पिता जब उसके ससुराल पहुंचे तो उसकी हत्या हो चुकी थी ।अभियोजन की ओर से प्रभाष त्रिपाठी ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 304 बी,120 बी में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।

शॉर्ट सर्किट से लगी आग में तीन दुकानें जलकर राख

बगहा/सं। प्रखंड बगहा दो के करीब मुख्य सड़क के किनारे स्थित तीन दुकानों में गुरुवार-शुक्रवार की मध्य रात्री लगी आग में सब कुछ जलकर राख कर दिया। आग लगने के असली कारणों का अबतक पता नही चल पाया है। कथित रूप से बिजली की शार्ट सर्किट बताई जा रही है।आग के चेपेट में आकर वर्मा फोटो स्टेट, सोनु बैठा जो कपड़े धोने का दुकान तथा कन्हैया सहनी की अनलाईन दुकान में रखे उपकरण सहित सबकुछ जलकर खाक हो गया।मालूम हो कि अवैध जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में चर्चित हुए वर्मा फोटो स्टेट में आग लगने पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।खबर लिखे जाने तक तीनों पीड़ित थाना व अंचल को आवेदन लिख रहे थे।

आर्म्स के साथ गिरफ्तार

मोतिहारी/सं। तुर्कौलिया थाना पुलिस ने सेमरा भुमिहारी टोला में छपेमारी कर एक अपराधी को आर्म्स एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक एसपी कांतेश कुमार मिश्र को मिली जानकारी के बाद डीएसपी सदर-2 जीतेश पांडेय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी सच थानाध्यक्ष पूजा विश्वास, सुगौली थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार, अपर थानाध्यक्ष तुर्कौलिया सुरेश यादव एवं जिला सूचना इकाई के चिरंजीवी, नित्यानंद दुबे एवं सराश्व बल को शामिल किया गया। टीम ने फौरी कार्रवाई के तहत सेमरा भुमिहारी टोला की नाकेबंदी कर अपराधी आयुष ठाकुर के घर की तालाशी ली, तत्पश्चात एक देशी कट्ठा, दो पिस्टल एवं दो कारतूस बरामद किया। वहीं मौके पर आयुष को गिरफ्तार कर लिया। आयुष ठाकुर पूर्व का अपराधी है। उसके विरूद्ध गोबिंदगंज थाना में पिता के हत्या मामले दर्ज है।

झपटमारों को पकड़ने के प्रयास में युवक ट्रेन से कटा

आदापुर/पू.च/सं। सीतामढ़ी- रक्सौल रेलखंड के आदापुर स्टेशन पर एक 25 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, फलस्वरूप उसका दोनों पैर कट गया। जानकारी के अनुसार उक्त युवक ट्रेन के डिब्बे के गेट पर खड़ा था, तबतक अचानक झपटमार गिरोह के एक सदस्य मोबाइल छीनकर भागने लगा, इसी क्रम में वह उसे पकड़ने के लिए उतरा की डिब्बे से टकराकर ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक डॉ. संजय गुप्ता, डॉं संतोष पासवान एवं अन्य चिकित्सक घंटों इलाज के बाद भी नहीं बचा सके।

नप सफाईकर्मियों की हड़ताल पांचवें दिन समाप्त

सुगौली/पू.च/सं। स्थानीय नगर पंचायत के सफाईकर्मि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल कर रहे थे। जिनका हड़ताल नप के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार, वार्ड 8 के पार्षद श्याम शर्मा और स्वच्छता प्रबंधक मोइन अंसारी के पहल पर पांचवें दिन शुक्रवार को समाप्त हो गई। तत्पश्चात सफाईकर्मि नगर के सफाई कार्य एवं पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, वार्ड 8 के पार्षद और नगर स्वच्छता प्रबंधक के द्वारा सफाईकर्मियों के मांगों को 5 जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाईकर्मियों ने अपना हड़ताल समाप्त किया।

खाते से उड़ाये 2 लाख 29 हजार

रक्सौल/पू.च/सं। थाना क्षेत्र के बड़ा परेडवा वॉर्ड नम्बर 16 निवासी फेजुल्लाह सालिक के खाते से साहबूर ठगों ने 2,29,240 की निकासी कर ली है। जानकारी के अनुसार ठगों न 6 जून को र.एच.एल रुपाद दो बार में निकाला है। रुपए निकासी की जानकारी के बाद पीड़ित के होश उड़ गए। मामले की जानकारी होने पर जब पीड़ित बैंक गया तो बैंक वालों ने भी पल्ला झाड़

कांटेक्ट किलर से कराई गई जिप सदस्य की हत्या

मोतिहारी/सं। पुलिस ने जिला परिषद सदस्य सह पैक्स अध्यक्ष सुरेश यादव की हत्या का उदभेदन करते हुए बहुत कुछ खुलासे नही की हैं। हालांकि पुलिस की माने तो लखौरा के फुलवार गांव निवासी दिलरंजन दुबे हत्या के लिए दस लाख की सुपारी दी थी, या देनी थी। घटना को कांटेक्ट किलरो ने अंजाम दिया है। हत्या कांड को तीन अपराधी शामिल थे। बावजूद इसके इसमें पांच लोग सामने आये है। दिगर है कि कुछ लोग लाइनर के तौर पर चन्हित किये गए हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के कड़े तेवर को देखते हुए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अलबत्ता अपराधियों की बाइक व मोबाइल फोन मिलने के बाद पुलिस का काम ज्यादा आसान हो गया और अपराधी जल्द ही पकड़े गये। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि घटना के बहुत देर बाद पुलिस को मोबाइल मिला, जिससे मामले के उद्भेदन में थोड़ा वक्त लग गया।

सेकेंड अटेम्ट में हुई सुरेश यादव की हत्या

जिला परिषद हत्याकांड में जो बातें सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि दूसरे प्रयास में चांदमारी चैक के पास सुरेश यादव को गोली मारी गई। गिरफ्तार अपराधियों के मुताबिक उन्हें घर से निकलने के बाद ही मार देना था। इस बीच अपराधी हरिशंकर पासवान व सुदामा सहनी को भूख लग गई और दोनों को खाने में ही देर हो गई, तबतक सुरेश यादव घर से निकल गए। अपराधी उनके गांव में जाकर लौट गए थे।

अरeraज में पिता की हत्या कराने वाला आयुष भी गिरफ्तार

यह संयोग ही है कि अरeraज रजिस्ट्री आफिस के गेट पर दो साल पहले संजय ठाकुर हत्या में शामिल शूटर सुगौली के मधुमलती का हरिशंकर पासवान जिप सदस्य हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। वही तुर्कौलिया में संजय ठाकुर की हत्या का सलिश रचने वाला उनका बेटा आयुष भी आर्म्स के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके घर में अलमीरा से पुलिस ने दो पिस्टल बरामद किया गया। वहीं उसके पास से एक कट्ठा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पिता की हत्या के मामले में वह पहले गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2022 में तुर्कौलिया के सेमरा गांव के सजय ठाकुर की अरeraज ब्लॉक गेट पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें हरिशंकर पासवान ने भूमिका निभाई थी। वह मोतिहारी के अगत्वा मोहल्ला आवास से अरeraज इयूटी पर पहुंचे थे, जहां उन्हें गोली मारी गई।

कांटेक्ट कीलरो के द्वारा की गई है।

इसके लिए दस लाख की सुपारी

जिहली मुखिया बने भाजपा के जिला मंत्री

जिला अध्यक्ष ने पत्र जारी कर सौंपा दायित्व

लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य को लेकर मिली बड़ी जिमेवारी

पताही/पू.च/सं। प्रखंड के जिहली पंचायत के मुखिया विकास कुमार उर्फ निक्कू सिंह को भाजपा का जिला मंत्री बनाया गया है। जिला मंत्री का दायित्व भाजपा संगठन



जिला ढाका के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी ने पत्र जारी कर सौंपा है। उल्लेखनीय है कि मुखिया श्री सिंह को पिछले वर्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चैधरी ने सदस्यता ग्रहण कराई थी। सदस्यता ग्रहण करने के

फिरौती मांगने के आरोप में देसी कट्टे के साथ चार गिरफ्तार

बगहा/सं। रामनगर थाना क्षेत्र से व्यवसायियों को धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामनगर एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसको लेकर बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के द्वारा शुक्रवार के दिन संवाददाता सम्मेलन आयोजित पर इसकी जानकारी दी गई।जनकरी के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से व्यवसायियों से फिरौती मांगी जा रही थी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी । जिससे व्यवसायी वर्ग में डर का माहौल पनप रहा था। मामला की जानकारी जब पुलिस को लगी तो बगहा एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ रामनगर के नेतृत्व में टीम गठन कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। डीआईयू बगहा की टीम भी मामले के उद्भेदन में जुट गई।

कोचिंग संचालक व छात्राओं को मनचलों ने बेरहमी से पीटा

कई छात्राएं घायल, एक गंभीर

एक महिला गिरफ्तार, आठ की सरगमीं से खोज

पहाड़पुर/पू.च/सं। थाना क्षेत्र के उत्तरी नोर्नेया पंचायत के चैबे टोला पंडितपुर के बीच में स्थित एक कोचिंग सेंटर में दोपहर आठ की संख्या में पहुंचे मनचलों ने कोचिंग में आठवीं वर्ग की लड़कियों को पढ़ा रहे शिक्षक सोनू कुमार को गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। शिक्षक को सामने पिटाते देख जब छात्राओं ने विरोध किया, तब मनचलों ने शिक्षक को छोड़ लड़कियों की बेरहमी से पिटाइ करने लगे। नतीजतन दर्जनों



लड़कियां गंभीर रुप से घायल हो गयीं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सभी लड़कियों को परिजनों की सहयोग से पहाड़पुर सीएचसी लाया, जहां सभी का इलाज किया गया। घायल में करुण कुमार, नीमा कुमारी, सोनी कुमारी, सुमन कुमारी, रंजनी कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रीति कुमारी, शिल्पी कुमारी, सानिया खानुन सहित अन्य शामिल है।

तालाब, पोखर, आहार, पड़न, कुओं से शीघ्र हटाएं अतिक्रमण : डीएम

मोतिहारी/सं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली मिशन की समीक्षात्मक बैठक डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में की गई। जिसमें सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित थे। इस क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को सार्वजनिक जल संचयन सरचनाओं यथा. तालाब, पोखर, आहार, पड़न, कुआं आदि को शत- प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया। जबकि पंचायत राज पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता निर्माण कार्य को पूर्ण करने एवं संबंधित पोर्टल पर इसका प्रगति प्रतिवेदन अपलोड करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैकक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, निदेशक डीआरडीए तथा जिला मिशन प्रबंधक उपस्थित थे।



फुलवार निवासी दिलरंजन दुबे ने देने की बात की थी, जिसे हत्या के बाद भुगतान कर देना था। दिगर है कि इस बीच ये गिरफ्तार कर लिए गये। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान प्रयुक्त बाइक सुगौली का लक्की पासवान चला रहा था, जो सुगौली में बाइक गैरेज चलाता है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल व दो कारतूस बरामद किये गये है। हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, बावजूद पुलिस उक्त मामले में छानबीन कर रही है। गिरफ्तार हरिशंकर पासवान पूर्व से कांटेक्ट किलर का काम करता है। इसके विरूद्ध गोबिंदाय थाना में हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। वहीं सुदामा सहनी नगर थाना में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त वह छत्तौनी थाना में हत्याकांड में जेल जा चुका है। इस घटना में हथियार देने का काम सुदामा सहनी ने ही किया था। सुदामा सहनी का छपेमारी टीम में अरeraज डीएसपी रंजन कुमार, सदर डीएसपी-2 जितेश पांडेय, ट्रेनी डीएसपी सह

विकास कार्यों में टैक्स मद से करोड़ों खर्च के सही उपयोग की लामुक जनता करें निगरानी : गरिमा

योजना के लिए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य की नगर निगम प्रशासन को सख्ती बरतने का महापौर ने दिया निर्देश

बेतिया/सं। नगर निगम के विभिन्न वार्डों के लिए पारित कुल 5.17 करोड़ से भी अधिक की कुल 46 विकास योजनाओं का महापौर ने अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को कायादर्श बांटा। इस मौके पर महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि विकास कार्यों में आम जनता द्वारा भुगतान की गई टैक्स मद से करोड़ों की रकम खर्च हो रही है। इसके सही उपयोग की चौकस निगरानी लामुक आम जनता को ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावे प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित समय सीमा में मानक गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए पूरा सख्ती बरतने के निर्देश नगर निगम प्रशासन को उनके द्वारा निदेश उनके



द्वारा दिया गया है। श्रीमती सिकारिया ने बताया कि इसके साथ ही विभागीय आदेश के अनुसार योजना की शुरुआत, मध्य और काम पूरा होने पर भी प्रत्येक विकास योजना का जीपीएस ऐप आधारित फोटो निर्माण कार्य के साथ निगम को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड नं० 34 पूर्वी गनौली मेलक्ष्मण मांझी के घर होते हुए शमसान रोड तक सड़क निर्माण कार्य, प्रा० राशि- 11910008/-, वार्ड नं०-38 में राजन ठाकुर के घर से कौशल प्रसाद के घर तक सड़क

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BAORD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURES REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018. AS AMENDED.



(Please scan this QR Code to view the DRHP)

PUBLIC ANNOUNCEMENT



BMW VENTURES LIMITED

Our Company was originally incorporated as "BMW Ventures Limited" at Patna, Bihar on October 07, 1994, as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Bihar, Patna, bearing Corporate Identification Number U25111BR1994PLC006131 and Certificate of Commencement of Business was issued on October 19, 1994 at Patna.

Registered and Corporate Office: 1st Floor, Mona Cinema Complex, East Gandhi Maidan, Patna-800004;

Tel. No.: +91 81022 23771/74; **E-mail:** cs@bmwventures.com; **Website:** www.bmwventures.com;

Contact Person: Ruchika Maheshwari Kejriwal, Company Secretary and Compliance Officer **Corporate Identity Number:** U25111BR1994PLC006131

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. BIJAY KUMAR KISHOREPURIA, MRS. SABITA DEVI KISHOREPURIA, MR. NITIN KISHOREPURIA AND MRS. RACHNA KISHOREPURIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 2,34,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹[-] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[-] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[-] LAKHS (THE "ISSUE"). THE ISSUE WOULD CONSTITUTE 27.00% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and the promoter Selling Shareholder may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders of which one-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹2 lakhs and up to ₹10 lakhs and two-third portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders with a Bid size of more than ₹10 lakhs, provided that unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price all potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA Process. For further details, see "Issue Procedure" on page 309.



This public announcement is being made in compliance with the provisions of regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 28, 2024 with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on June 28, 2024.

Pursuant to Regulation 26(1) of SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, the BRLM at www.sarthi.in, our Company at www.bmwventures.com, and the Stock Exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI in respect of disclosures made in the DRHP. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the Issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 31.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may be made after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been registered with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in the RHP from the DRHP. The Equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on Stock Exchanges.

The liability of the members of our Company is limited by shares. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 190 of the DRHP. For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories of the Memorandum of Association and the number of shares of our Company subscribed by them, please see "Capital Structure" beginning on page 94 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <p>Sarthi Capital Advisors Private Limited CIN: U65190DL2012PTC238100 401, 4thFloor, Manek Plaza, 167, Vidyannagari Marg, Kalina, Santacruz (E), Mumbai – 400 098 Tel No.: +91 22 2652 8671/ 72 Email Id: compliance@sarthiwm.in Website: www.sarthi.in Contact Person: Taher Engineer SEBI Registration No.: INM000012011</p>	 <p>Cameo Corporate Services Limited CIN: U67120TN1998PLC041613 Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai-600002 Tel No.: +91 44 4002 0700 E-Mail Id: bmw@cameoindia.com Investor Grievance E-Mail Id: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com Contact Person: K. Sreepriya SEBI Registration No.: INR000003753</p>

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the DRHP.

<p>Place: Patna Date: June 28, 2024</p> <p><i>BMW Ventures Limited</i> is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 28, 2024 with SEBI on June 28, 2024. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, NSE at www.nseindia.com, BSE at www.bseindia.com and the website of the BRLM at www.sarthi.in and our Company at www.bmwventures.com. Any potential investor should note that the investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to risk, please see to the section titled "Risk Factors" of the RHP, when filed. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decisions. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 31 of the DRHP</p> <p>The Equity Shares offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933, as amended ("U.S. Securities Act") or any other applicable laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity shares are being offered and sold outside the United States in offshore transactions as defined in and in reliance on regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.</p>	<p>For BMW Ventures Limited On behalf of Board of Directors</p> <p>Sd/-</p> <p>Ruchika Maheshwari Kejriwal Company Secretary and Compliance Officer</p>
--	--